

मंत्रपरिषद की बैठक में लिये गए महत्त्वपूर्ण नरिणय

चर्चा में क्यों?

30 दसिंबर, 2022 मुख्यमंत्ररी भूपेश बघेल की अध्कषता में हुई राज्क मंत्रपरिषद की बैठक में राज्क के अध्कारियों-कर्मचारियों के एनपीएस की राशावापस करने के केंद्र सरकार की मनाही के बाद भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का नरिणय लेने के साथ ही कई अन्य महत्त्वपूर्ण नरिणय लरिए गए ।

प्रमुख बदि

- कैबनरट की बैठक में राज्क के अध्कारियों-कर्मचारियों के एनपीएस की राशावापस करने के केंद्र सरकार की मनाही के बाद भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का नरिणय लरिया गरा ।
 - इसके तहत शासकीय सेवकों को 1 अप्रैल, 2022 से ही छत्तीसगढ़ सामान्क भवषिय नधि का सदस्य माना जाएगा और 1 नवंबर, 2004 या उसके बाद नरुकुत तथरिसे 31 मार्च, 2022 तक एनपीएस खाते में जमा कर्मचारी अंशदान और उस पर अर्रजति लाभांश शासकीय कर्मचारी को एनपीएस नरियमों के तहत देर होगा ।
 - कर्मचारियों को राज्क शासन के अंशदान और उस पर अर्रजति लाभांश जमा करने पर ही पुरानी पेंशन की पात्रता होगी । इसके लरिये शासकीय सेवकों को एनपीएस के अंतरगत पूर्ववत बने रहने अथवा पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने का वकिलूप नोटराईज्ड शपथ-पत्र में देना होगा । यह वकिलूप अंतमरि और अपरवररतनीय होगा ।
 - शासकीय सेवक द्वारा पुरानी पेंशन योजना के वकिलूप लेने पर 1 नवंबर, 2004 से 31 मार्च, 2022 तक एनपीएस खाते में शासन द्वारा जमा करिये गए अंशदान एवं उस पर प्राप्त लाभांश को शासन के खाते में जमा करना होगा ।
 - 1 अप्रैल, 2022 एवं उसके पश्चात् नरुकुत होने वाले राज्क के शासकीय सेवक अनवरररर रूप से पुरानी पेंशन योजना के सदस्य होंगे ।
- कैबनरट की बैठक में स्कूल भवनों की मरममत के लरिये वररिष योजना प्रारंभ करने का नरिणय लरिया गरा । इस योजना में कुल 780 करोड़ रुपए स्कूलों की मरममत में खर्रच करिये जाएंगे ।
- वाणजियकि वृकषारोपण से परर्यावरण सुधार और कसिानों की आरक में वृद्धरि के लरिये महत्त्वपूर्ण नरिणय लेते हुए राज्क में मुख्यमंत्ररी वृकष संपदा योजना प्रारंभ करने का नरिणय लरिया गरा ।
- प्रदेश में मलरिटस मशरन काररकुरम के कररियान्वयन के संबंघ में चर्चा की गई और राज्क में मलरिट उत्पादन एवं उसके उपरयोग को बढ़ावा देने के लरिये कृषरि, वन, सहकाररता, पंचायत एवं ग्रामीण वकिस, स्कूल शकिस, अनुसूचरति जातरि एवं जनजातरि वकिस, खादरक, महलरिा एवं बाल वकिस, ग्रामोदरयोग, संस्कृतरि, वाणजिय एवं उदरयोग, परररटन, जनसंपर्रक, गृह एवं जेल, वाणजियकि कर तथा स्वासथ्य एवं परवरर कलर्याण वभरिाग द्वारा संरुकुत रूप से पहल की जाएगी ।
- छत्तीसगढ़ अनधकृरत वकिस का नरियमतरिकरण (संशोधन) वधियक, 2022 के प्रारूप का अनुमोदन करिया गरा ।
- छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतषिध) वधियक, 2022 के प्रारूप का अनुमोदन करिया गरा ।
- अंतरवभरिगीय और अंतरनकरिया से संबंघतरि केंद्र राज्क प्रवररतरि योजनाओं के क्लस्टर स्तर पर कररियान्वयन अनुश्रवण हेतु 5 नवीन ज़रिलों में ज़रिलासुतररीय एग्लोमरेशन एवं ज़रिलासुतररीय समतरि गठन का नरिणय लरिया गरा ।
- एंबुलेंस श्ररेणी के वाहनों से जीवनकाल कर उदग्रहण हेतु छत्तीसगढ़ मोटररान करराधान अधनरियम, 1991 में संशोधन प्रारूप का अनुमोदन करिया गरा ।
- वाहनों से असुथारयी पंजीयन कर में वृद्धरि करिये जाने हेतु छत्तीसगढ़ मोटररान करराधान अधनरियम, 1991 एवं नरियम 1991 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन करिया गरा ।
- राज्क के सभी ज़रिलों में राज्क योजना के राशनकार्डधाररियों (एपीएल को छोड़कर) को फोरुटफरईड चावल वतररण करने का नरिणय लरिया गरा । इसमें 42 करोड़ रुपए की राशा वरियर होगी ।
- राषुटरीय खादरक सुरकषा अधनरियम, 2013 के अंतरगत जररी राशनकार्डों में माह जनवररी 2023 से दसिंबर 2023 तक नरिशुलक खादरकान्न वतररण के समान ही छत्तीसगढ़ खादरक एवं पोषण सुरकषा अधनरियम, 2012 के अंतरगत जररी अंतुदरक एवं प्रारथमकरिता राशनकार्डों में नरिशुलक खादरकान्न वतररण करने का नरिणय लरिया गरा ।
- छत्तीसगढ़ औदरयोगकि भूमा एवं प्रबंधन नरियम 2015 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन करिया गरा ।
- वधरिनसभा कषेतर कुरमाक 88 दंतेवाड़ा के माननीय वधरियक भीमा मंडावी की मृतु की घटना की नर्यायकि जाँच का प्रतवरिदन प्रसुतुत करिया गरा ।

